



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1933 (श०)
(सं० पटना 552) पटना, शुक्रवार, 23 सितम्बर 2011

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
23 सितम्बर 2011

सं० नि०प्रा०/नि० 1-01/2011/9033—चूँकि सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 3120, दिनांक 08 जुलाई 2011 एवं 3184, दिनांक 12 जुलाई 2011 द्वारा राज्य में अवस्थित प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराने का निर्णय बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को संसूचित किया गया है एवं वर्तमान में ऐसी समितियों की संख्या 378 है,

और, प्रत्येक मत्स्यजीवी प्रखंड सहयोग समिति में 1 (एक) अध्यक्ष, 1 (एक) मंत्री/ कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के 11 (ग्यारह) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है,

और, चूँकि राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इन समितियों का निर्वाचन विभिन्न चरणों में पूरा कराने का निर्णय लिया है,

और, प्रथम चरण में कुल 197 प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार के अधिसूचना संख्या 8997, दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा निर्गत किया जा चुका है,

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद्वारा द्वितीय चरण में परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-2 में अंकित कुल 23 जिलों के 50 प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के अध्यक्ष, मंत्री/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 09 नवम्बर 2011 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें।

संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर 2011 को प्राधिकार के पत्रांक 8807, दिनांक 11 अगस्त 2011 के साथ संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-3) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक होगा। यह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं०) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना दिनांक 09 नवम्बर 2011 को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 4-5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 10 नवम्बर 2011 को सुबह 8:00 बजे से शुरू की जाय। दिनांक 09 नवम्बर 2011 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीधे मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 10 नवम्बर 2011 को मतगणना कराये जाने की स्थिति में वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन-2011

द्वितीय चरण के निर्वाचन कार्यक्रम

1. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन : 30.09.2011 (शुक्रवार)
2. नामांकन देने की तिथि : 15.10.2011 (शनिवार)
3. संवीक्षा की तिथि : 17.10.2011 (सोमवार)
4. अभ्यर्थिता वापसी की तिथि : 18.10.2011 (मंगलवार)
5. मतदान, अगर आवश्यक हो : 09.11.2011 (बुधवार)
6. मतगणना : 09.11.2011 (बुधवार)
10.11.2011 (गुरुवार)

परिशिष्ट-2

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन-2011 हेतु द्वितीय चरण के प्रखंडों का निर्वाचन

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
1	पटना	फुलवारी शरीफ
2	नालन्दा	बिन्द , नूरसराय

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
3	रोहतास	बिक्रमगंज
4	मुजफ्फरपुर	मोतीपुर
5	पूर्वी चम्पारण	ढाका, आदापुर
6	पश्चिम चम्पारण	भितहां, लौरिया, रामनगर, सिकटा
7	सीतामढ़ी	बथनाहा
8	शिवहर	तरियानी
9	वैशाली	देसरी, पटेढ़ी बेलसर
10	सारण	अमनौर, नगरा
11	गोपालगंज	कुचायकोट
12	दरभंगा	केवटी, बेनीपुर, गौड़ा बौराम , कुशेश्वर स्थान (पूर्वी), मनीगाछी
13	मधुबनी	फुलपरास, अंधराठाढ़ी, बिस्फी, मधवापुर
14	समस्तीपुर	वारिसनगर, रोसड़ा, उजियारपुर, शिवाजीनगर
15	बेगूसराय	चेरिया बरियारपुर
16	सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर
17	कटिहार	प्राणपुर, मनिहारी
18	भागलपुर	गोराडीह, नाथनगर ,खरीक ,नारायणपुर ,नवगछिया
19	बांका	धुरैया, अमरपुर
20	मुंगेर	हवेली खडगपुर, धरहरा ,मुंगेर सदर
21	खगड़िया	अलौली, चौथम, गोगरी
22	लखीसराय	लखीसराय
23	जमुई	खैरा

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-3

मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंड.....के मत्स्यजीवी सहयोग समितिके अध्यक्ष, मंत्री/कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है, मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2
अध्यक्ष	1(अनारक्षित)
मंत्री / कोषाध्यक्ष	1(अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	11(अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर

(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(उप-निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।

(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 2 बजे के पूर्व तकपर

(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी का तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद प्रतीक का विधिमन्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न से.....बजे अपराह्न तक होगा।

(Vii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि -

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 552-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>